

The BSE Ltd.
BSE's Corporate Relationship Department
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, P.J. Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai 400 001

National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza" Bandra-Kurla Complex Bandra (E) Mumbai- 400 051

SRF/SEC/ 2023 30<sup>th</sup> October,2023

Dear Sir,

# Sub: Newspaper Clippings of Unaudited financial Results for quarter and half year ended September 30, 2023 - SRF Limited

In Compliance with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 please find attached herewith copies of unaudited results published in Business Standard & Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) newspaper. Copies of said advertisement are also available on the website of the Company at <a href="https://www.srf.com">www.srf.com</a>

Request to kindly take this intimation on record.

Thanking you,

Yours faithfully, For **SRF LIMITED** 

Rajat Lakhanpal Sr. VP (Corporate Compliance) & Company Secretary

Encl : A/a

SRF LIMITED
Block-C Sector 45
Gurugram 122 003
Haryana India
Tel: +91-124—4354400
Fax: +91-124—4354500
E-mail: info@srf.com
Website: www.srf.com
Regd. Office:
Unit No. 236 & 237, 2nd Floor
DLF Galleria, Mayur Place
Noida Link Road
Mayur Vihar Phase 1 Extension
Delhi 110091

# Dr.Reddy's

Extract of unaudited financial results of Dr. Reddy's Laboratories Limited and its subsidiaries for the quarter and half year ended 30 September 2023 prepared in compliance with Indian Accounting Standards

			All amo	ounts in Indian F	Rupees millions
			Cons	olidated	
SI. No.	Particulars	Quarter ended 30.09.2023 (Unaudited)	Quarter ended 30.09.2022 (Unaudited)	Half Year ended 30.09.2023 (Unaudited)	Year ended 31.03.2023 (Audited)
1	Total Revenue from operations	69,026	63,318	136,605	246,697
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	19,167	16,136	37,667	60,485
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	19,167	16,136	37,667	60,485
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	14,822	11,142	28,872	45,073
5	Total Comprehensive Income for the period	13,688	10,521	27,781	44,952
6	Equity Share Capital	834	832	834	833
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)				232,028
8	Earnings per share (in Rupees) per Rs. 5/- share				
	Basic	89.09	67.13	173.64	271.47
	Diluted	88.91	66.98	173.27	270.90
			All am	ounte in Indian	Pupose millione

	All amounts in Indian Rupees millions										
		Standalone									
SI. No.	Particulars	Quarter ended 30.09.2023 (Unaudited)	Quarter ended 30.09.2022 (Unaudited)	Half Year ended 30.09.2023 (Unaudited)	Year ended 31.03.2023 (Audited)						
1	Total Revenue from operations	48,387	48,803	102,760	169,625						
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	16,006	16,929	38,202	38,660						
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	16,006	16,929	38,202	38,660						
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	11,926	11,163	28,320	26,128						
5	Total Comprehensive Income for the period	11,326	11,757	28,112	25,594						
6	Equity Share Capital	834	832	834	833						
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)				203,909						
8	Earnings per share (in Rupees) per Rs. 5/- share										
	Basic	71.68	67.25	170.32	157.37						
	Diluted	71.54	67.10	169.96	157.03						

1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchanges website: www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website: www.drreddys.com.

The unaudited results have been reviewed by the Audit Committee of the Board at their meeting held on 27 October 2023 and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 27 October 2023.

> By order of the Board For Dr. Reddy's Laboratories Limited

G V Prasad Co-Chairman & Managing Direcor

Dr. REDDY'S LABORATORIES LIMITED

Regd. Office: 8-2-337, Road No.3, Banjara Hills, Hyderabad - 500 034, Telangana, India CIN: L85195TG1984PLC004507, Tel: 91 40 4900 2900, Fax: 91 40 4900 2999 email: shares@drreddys.com, website: www.drreddys.com

### **PUBLIC NOTICE**

NOTICE is hereby given to all investors of Indiareit Domestic Real Estate Strategy I ("Indiareit PMS") that pursuant to the order of the Hon'ble the Delhi High Court in W.P.(CRL) 2555/2023 dated September 5, 2023 and 20th September 2023, Mr. Pradeep Nandrajog, former Chief Justice of Rajasthan High Court and judge of Bombay High Court and Delhi High Court, has been appointed as an Administrator to disburse the principal amounts invested by investors in the PMS from the amount deposited by Piramal Fund Management Private Limited ("PFMPL") with the Administrator (in the form of DDs), by way of return/refund to the investors as a one time payment.

Investors are requested to contact the administrator for receipt of the principal amount towards settlement of all their claims against the PMS/PFMPL in terms of the Delhi High Court Order. You are requested to contact Piramal Fund Management Private Limited at investors@piramal.com for further information about the procedure to be followed in this regard.

## Address:

**Piramal Fund Management Private Limited** Ground Floor, Piramal Tower, G. K. Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013

# COCHIN INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED

CIAL/CIVIL/604 F_TENI	DER NOT	TICE 2	8.10.2023
Item rate E-tenders are inv work mentioned below Nedumbassery.	ited from re	puted agenci	es for the Airport,
	Estimated	EMD	Period of

Name of Work (Rs.) Amount (Rs. Completion Strengthening and Up-Rs.30.45 12 Rs. 31,00,000/gradation of Airport Approach Months Crores Road & Construction of Road to 09 Lighting area at CIAL For more details visit our website **www.cial.aero** 

Sd Managing Director

### **ROUTE MOBILE LIMITED**

: Hyderabad

: 27 October 2023

routemobile CIN: L72900MH2004PLC146323 Registered Office: 4th Dimension, 3rd Floor, Mind Space, Malad (West), Mumbai - 400064
Tel: +91 (022) 4033 7676 | Fax: +91 (022) 4033 7650

### NOTICE (For the attention of Equity Shareholders of the Company)

We wish to inform you that the Board of Directors of your Company have at their Meeting held on October 27, 2023, declared the Second Interim Dividend of ₹ 3/- per equity share having nominal value of ₹ 10 /- each for the F.Y. 2023-24. The Record Date to determin eligible shareholders is fixed as November 4, 2023.

As you may be aware in terms of the provision of the Income-Tax Act, 1961, ("Act" dividend paid or distributed by a Company on or after April 01, 2020, shall be taxable the hands of the shareholders. The Company shall therefore be required to deduct tax at source (TDS) at the time of payment of dividend to Resident shareholders at 10% with valid Permanent Account Number (PAN) or at 20% without/invalid PAN and for Non-Resident shareholders at the rates prescribed under the Act or Tax Treaty, read with Multilateral Instruments, if applicable. No withholding of tax is applicable if the dividend payable in aggregate to resident individual shareholders (having valid PAN) is up to  $\stackrel{?}{\sim} 5000$ /- P.A. within a Financial Year.

Further the Finance Act, 2021 has brought in section 206AB effective from July 1, 2021 wherein tax would be deducted at higher rates (twice the specified rate) on paymer of dividends to a specified person who has not furnished the return of income for the assessment year relevant to the previous year immediately preceding the financial year in which tax is required to be deducted, for which the time limit for furnishing the return of income under sub-section (1) of section 139 has expired and the aggregate of tax deducted at source and tax collected at source in his case is rupees fifty thousand or more in the said previous year: The Company is accordingly required to deduct TDS twice the rate specified under the Act in respect of payment of dividend to such specified persons The TDS rate would vary depending on the residential status of the Shareholder and the documents submitted by them and accepted by the Company in accordance with the applicable provisions of the Act. The details of the TDS rates applicable to different categories of shareholders, and documentation required, will be available on our website at https://www.routemobile.com/investors/ ("Second Interim Dividend - October 2023). Requesting you to share such information/documents online by way the link https://ris.kfintech.com/form15 on or before 5 P.M. IST of November 4, 2023 for claiming exemptions if any. For any queries, please write to einward.ris.@kfintech.com.

In case of any queries, please contact Company's Registrar and Share Transfer Agent KFin Technologies Limited at their following address/email/telephone number:

### KFin Technologies Limited

Place : Mumbai

Unit: Route Mobile Limited, Selenium Tower B. Plot No. 31-32 Gachibowli, Financial District,

Nanakramguda, Hyderabad 500032 Telephone: +91 (040) 6716 2222 Toll free No.: 1800-309-4001 Email: einward.ris@kfintech.com

October 27, 2023 For Route Mobile Limited Rathindra Das Group Head Legal, Company Secretary and Compliance Office

(Membership No.: FCS 12663)

Dear Members We request you to register your e-mail ID to receive all communications electronically. In case you hold securities of the Company in demat mode, please furnish your e-mail ID to your

Depository Participant (i.e., with whom you have your demat account). If you hold securities in physical mode, please furnish your email ID to the Company's Registrar & Share Transfe Agent, KFin Technologies Limited at their e-mail ID einward.ris@kfintech.com. For more details, you may please contact: <a href="mailto:investors@routemobile.com">investors@routemobile.com</a>

JM FINANCIAL ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LIMITED JM FINANCIAL

Corporate Identity Number : U67190MH2007PLC174287 Regd. Office : 7th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai – 400 025.

Tel. No.: +91 22 6630 3030 • Fax No.: +91 22 6630 3223 • Email: vineet.singh@jmfl.com • Website: www.jmfinancialarc.com

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE SECOND QUARTER ENDED SEPTEMBER 30, 2023 Quarter ended Year ended Sr. Particulars 

No.	Particulars	September 30, 2023 (Unaudited)	September 30, 2022 (Unaudited)	March 31, 2023 (Audited)
1	Total Income from Operations	97.99	91.14	234.70
2	Net Profit / (Loss) for the period / year (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items#)	12.44	20.54	(204.67)
3	Net Profit / (Loss) for the period / year before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items#)	12.44	20.54	(204.67)
4	Net Profit / (Loss) for the period / year after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items#)	9.37	15.00	(154.93)
5	Total Comprehensive Income for the period / year [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	9.27	14.81	(155.08)
6	Paid up Equity Share Capital	398.33	398.33	398.33
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	1,169.15	1,304.66	1,134.76
8	Securities Premium Account	283.18	283.18	283.18
9	Net worth	1,567.48	1,702.99	1,533.09
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	3,050.97	2,560.66	3,117.93
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	_	_	_
12	Debt Equity Ratio	1.95	1.50	2.03
13	Earnings Per Equity Share of ₹ 10/- each from continuing operations (in ₹)			
	1. Basic:	0.24	0.38	(3.89)
	2. Diluted:	0.24	0.38	(3.89)
14	Capital Redemption Reserve	_	_	_
15	Debenture Redemption Reserve	_	_	_
16	Debt Service Coverage Ratio	Not applicable	Not applicable	Not applicable
1 4-7	1	l		

# - Exceptional and / or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind AS Rules / AS Rules, whichever is applicable

### Notes

Place: Mumbai Date: October 26, 2023

17 Interest Service Coverage Ratio

- 1. The above unaudited financial results have been reviewed by the Audit Committee, and on its recommendation, have been approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on October 26, 2023. These results have been subjected to a limited review by the Statutory Auditors of the Company, who have issued an unmodified report thereon.
- The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results filed with the BSE Limited (BSE) under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR). The full format of said unaudited financial results are available on the website of BSE at www.bseindia.com and on the website of the Company at www.jmfinancialarc.com.
- The other details required under Regulation 52 and 54 of the SEBI LODR have been submitted to BSE and can be accessed at

For and on behalf of the Board of Directors Sd/-

Not applicable | Not applicable

Not applicable



### **NACL Industries Limited**

CIN: L24219TG1986PLC016607

Regd. Office: Plot No.12-A, "C" Block, Lakshmi Towers, No.8-2-248/1/7/78, Nagarjuna Hills, Punjagutta, Hyderabad-500082, Telangana State, India Phone: 040-24405100, Fax: 040-23358062, E-mail: cs-nacl@naclind.com, Website:www.naclind.com

Extract of the Statement of Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Half-year Ended September 30, 2023

**V P Shetty** 

DIN: 00021773

		Standalone					Consolidated				
SI. No	I Failiculais	Quarter ended	Quarter ended	Half year ended 30.09.2023	Half year ended	Year ended	Quarter ended	Quarter ended	Half year ended	Half year ended 30.09.2022	Year ended
				(Unaudited)						(Unaudited)	
1	Total Income from Operations	58,777	56,917	97,666	104,744	212,855	58,089	56,774	95,966	104,470	212,550
2	Net Profit for the period (before Tax & Exceptional and/or Extraordinary items)	1,112	4,012	(3,751)	6,053	13,774	568	4,000	(4,483)	6,020	12,841
3	Net Profit for the period before Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,112	4,012	(3,751)	6,053	13,774	568	4,000	(4,483)	6,020	12,841
4	Net Profit for the period after Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items)	858	3,001	(2,802)	4,514	10,279	408	2,989	(3,398)	4,481	9,487
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising (Loss)/Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	840	2,974	(2,839)	4,487	10,220	393	2,962	(3,432)	4,454	9,431
6	Paid-up equity share capital (Face value of ₹ 1 per equity share)	1,988	1,984	1,988	1,984	1,988	1,988	1,984	1,988	1,984	1,988
7	Earnings per Share										
a)	Basic	0.43	1.51	(1.41)	2.28	5.18	0.21	1.51	(1.71)	2.26	4.78
b)	Diluted	0.43	1.51	(1.40)	2.27	5.17	0.20	1.50	(1.70)	2.25	4.77

Place: Hyderabad

Date : October 27, 2023

The above Standalone and Consolidated Financial results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their September 30, 2023.

The above is an extract of the detailed format of Statement of Stateme 2023 filed with BSE Limited & NSE Limited under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Statement of Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Half year ended September 30, 2023 is available on the website of BSE & NSE Limited and Company's website at www.naclind.com By Order of the Board

> M. Pavan Kumar Managing Director & CEO (DIN:01514557)



Registered Office: The Galleria, DLF Mayur Vihar, Unit No. 236 & 237, Second Floor, Mayur Place, Noida Link Road, Mayur Vihar Phase | Extn, Delhi - 110091 Tel. No. (Regd. Office): (+91-11) 49482870 | Fax: (+91-11) 49482900 | E-mail: info@srf.com | Website: www.srf.com | CIN - L18101DL1970PLC005197

	STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2023											
											(Rs. in Crores)	
				STANDALONE			CONSOLIDATED					
١.,		QUARTE	R ENDED	HALF YEA	R ENDED	YEAR ENDED	QUARTE	R ENDED	HALF YEA	AR ENDED	YEAR ENDED	
SI. No.	Particulars	30-Sep-23	30-Sep-22	30-Sep-23	30-Sep-22	31-Mar-23	30-Sep-23	30-Sep-22	30-Sep-23	30-Sep-22	31-Mar-23	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
1	Total Income from Operations	2586.98	2971.84	5360.70	6074.71	12073.84	3177.36	3727.78	6515.74	7622.50	14870.25	
2	Profit for the period before tax	415.77	572.11	906.84	1298.45	2655.86	414.81	618.08	900.58	1459.67	2823.99	
3	Net Profit for the period after tax	308.72	439.15	674.12	947.58	2023.36	300.78	480.99	660.07	1088.99	2162.34	
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	276.88	343.46	713.27	730.41	1833.77	257.68	328.44	627.16	762.21	1966.71	
5	Paid up Equity Share Capital	296.42	296.42	296.42	296.42	296.42	296.42	296.42	296.42	296.42	296.42	
6	Reserves (excluding Revaluation Resrve)	9566.96	7955.26	9566.96	7955.26	8956.11	10554.37	8927.39	10554.37	8927.39	10029.61	
7	Net Worth	9863.38	8251.68	9863.38	8251.68	9252.53	10850.79	9223.81	10850.79	9223.81	10326.03	
8	Security Premium Account	509.56	509.56	509.56	509.56	509.56	509.56	509.56	509.56	509.56	509.56	
9	Debt Equity Ratio	0.34	0.35	0.34	0.35	0.34	0.46	0.42	0.46	0.42	0.43	
10	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)											
	(a) Basic :	10.42	14.81	22.74	31.97	68.26	10.15	16.23	22.27	36.74	72.95	
	(b) Diluted:	10.42	14.81	22.74	31.97	68.26	10.15	16.23	22.27	36.74	72.95	
11	Capital Redemption Reserve	10.48	10.48	10.48	10.48	10.48	10.48	10.48	10.48	10.48	10.48	
12	Debt Service Coverage Ratio	3.33	1.64	3.16	2.47	3.09	2.55	1.68	2.59	2.63	2.98	
13	Interest Service Coverage Ratio	6.83	13.28	7.35	17.19	13.10	5.65	13.46	6.11	17.98	12.67	

Place: Gurugram

Date: October 27, 2023

The above is an extract of the detailed format of Quarterly and half year ended results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and Regulation 52(4) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the results are available on the website of the Stock Exchange(s) (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and the Company's website (www.srf.com)

For and on behalf of the Board

**Ashish Bharat Ram** Chairman and Managing Director

We always find a better way

Chemicals Business | Packaging Films Business | Technical Textiles Business

**FINANCIAL EXPRESS** 

# 'Shocked' Vijayvargiya settles in for MP election fight

ANAND MOHAN J Indore, OCTOBER 27

**BJP NATIONAL GENERAL** secretary Kailash Vijayvargiya is preparing for the unexpected Assembly election he finds himself in, armed with fistfuls of mithai. Party workers gathered at a Dussehra Milan event in Indore's Mahavir Bagh Wednesday are greeted personally by the 67-year-old with a sweet placed in their mouths.

The six-time MLA knows the virtue of patience, as he feeds the sea of workers, listens

to their grievances, even cracks a joke. Now, he needs this forbearance more than ever. After the BJP named Vijayvargiya along with three Union ministers and four MPs for the Madhya Pradesh Assembly elections, the 67-year-old admitted he was "shocked". Some of it presumably linked to the fact that the ticket to him closed the door on his son, Akash, the sitting MLA from Indore-3. Vijayvargiya seems to have

reconciled since. The leader, credited with playing a crucial



Vijayvargiya hints his political ambitions remain. 'Party will give other responsibilities.'

role in BIP win in several states is now plotting his own and, via that, reclaiming the Malwa Nimar region for the party.

Whoever holds sway in the region's 66 seats generally goes on to form the government. In 2013, the BJP had won 57 seats in the region. But in 2018, when the Congress won with a thin majority, 36 of the 66 seats went to the party. The BJP won 28. While Vijayvargiya clearly hopes his feats will carry him through, sitting Indore-1 MLA Sanjay Shukla of the Congress is telling voters

that the BJP leader is a guest and positioning himself as the son of Indore.

Scoffing at this, Vijayvargiya says to The Indian Express: "I have been the mayor of Indore, a six-time MLA. If he (Shukla) doesn't know that I am from Indore, there can't be bigger ignorance." He has indicated that his larger political ambitions remain intact. "I will get other important responsibilities from the party," Vijayvargiya says at events, and adds that it won't be fun if he wins by a

mere 500-1,000 votes."I am a horse that runs the more you feed it," he says, adding that he enjoys the faith of both the party workers and public.

Around 3 km away, at Shakti Nagar temple, Shukla's Jan Sabha is a much quieter affair. Sitting on the ground, Shukla is having puris. This down-to-earth demeanour and personal connect with voters are Shukla's USP. Before Vijayvargiya was given the ticket, he had touched the elder BJP leader's feet when sharing the stage with him.

"There is no challenge," Shukla insists."I am the son of Indore. I've served for five years... Beta hi jitega, neta nahin (The son will win, not the politician)."

The Congress van in the area blares the Bollywood hit 'Tum toh thehre pardesi, saath kya nibhaoge (You are a stranger, how long will you be around)'. Shukla is hoping the focus on hyperlocal issues clicks, and recently sought a halt to Indore's nightlife."After 12, nothing should be open, he says.

# Cong names 19 more candidates for Rajasthan

THE CONGRESS THURS-**DAY** declared its third list of candidates for Rajasthan, announcing 19 names, including that of a sitting minister, and some Independent and former BSP MLAs

BPCL Q2

profit at

₹8,244 cr

New Delhi, October 27

tial decline of 22.5%.

the current fiscal.

filing on the BSE.

lion metric tonne).

company said.

keter's

The oil refiner-cum-mar-

On a quarterly basis too, the revenue from operations fell by 9%, as per the company's

The company's profit for the first half of the current fiscal stood at ₹19,052 crore

against a loss of ₹65,672 crore

in H1FY23 due to increase in

retail sales of auto fuels, which

rose 7.5% to 24.94 MMT (mil-

accounted in sales of MS-

Retail (5.09%), HSD-Retail (1.76%) and ATF (8.04%), the

The average Gross Refining

Margin (GRM) for H1FY24 fell

to \$15.42 per barrel, as against

\$22.30 a barrel in the first half

of last fiscal. This is before fac-

toring the impact of special additional excise duty and

road and infrastructure cess,

which came into effect from

July 1, 2022, the company said.

The increase was mainly

revenue from operations dropped 9% on year to ₹1.17 trillion in the second quarter of

consolidated

STATE-RUN BPCL REPORTED consolidated net profit of ₹8,244 crore in O2 FY24, against a net loss of 338 crore in the year-ago quarter, helped by lower crude prices and inventory gains from discounted Russian crude, that boosted marketing margins. The year-on-year improvement in bottom line beat market expectations, though the company's net profit on a consolidated basis saw a sequen-

**FE BUREAU** 

who have helped the Ashok Gehlot government through several crises. Of the 19, the Congress or its allies have sitting MLAs on 14. There are BJP MLAs in the remaining five seats. -ENS

**Uttar Gujarat Vij Company Limited** UG CL CIN: U40102GJ2003SGC042906 Regd. & Corporate Office, Visnagar Road, Mehsana -384001 Toll free No.19121 OR 1800233155335 www.ugvcl.com

### **TENDER NOTICE**

Tender Notice No:-1. UGVCL/SP/III/CPP/24-25/1231/AAA Conductor and 2. UGVCL/SP/IV/CPP/24-25/1234/3.5C LT PVC Cable is put up for on line tendering on www.ugvcl.com and https://tender.nprocure.com Interested Vendors are requested to locate the same for above mentioned Web site. I/c Chief Engineer (P&P)



RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED

Registered Office: Office - 101, Saffron, Nr. Centre Point, Panchwati 5 Rasta, Ambawadi, Ahmedabad - 380006 Gujarat, India. Phone: 079-35031200, Email: Jio.InvestorRelations@ril.com; Website: www.jio.com CIN: U72900GJ2007PLC105869

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30<sup>™</sup> SEPTEMBER 2023

SI. No	Particulars	Quarter ended 30.09.2023	Corresponding quarter for the previous year ended 30.09.2022	Previous year ended 31.03.2023 (Audited)
1a	Value of Services	29,122	26,519	1,06,838
1b	GST Recovered	(4,372)	(3,998)	(16,052
1c	Revenue from Operations	24,750	22,521	90,786
2	Net Profit for the period/year (before Tax and Exceptional items*)	6,793	6,062	24,429
3	Net Profit for the period/year before Tax (after Exceptional items*)	6,793	6,062	24,429
4	Net Profit for the period/year after Tax (after Exceptional items*)	5,058	4,518	18,200
5	Total Comprehensive Income for the period/year [Comprising Profit for the period/year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	5,057	4,512	18,20
6	Paid up Equity Share Capital	45,000	45,000	45,000
6a	Paid up Optionally Convertible Preference Share Capital (OCPS)	1,09,125	1,09,125	1,09,125
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)^	55,294	36,019	45,372
8	Securities Premium Account	16,000	16,000	16,000
9	Net worth	2,25,919	2,06,644	2,15,99
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	43,262	36,791	35,678
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	1.0		
12	Debt Equity Ratio	0.19	0.18	0.17
13	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - Not annualised			
	1. Basic:	1.12	1.01	4.05
	2. Diluted:	0.29	0.27	1.00
14	Capital Redemption Reserve			
15	Debenture Redemption Reserve	500	500	500
16	Debt Service Coverage Ratio	5.41	5.39	2.23
17	Interest Service Coverage Ratio	7.74	6.97	7.02

- 1 The above is an extract of the detailed format of unaudited quarterly standalone financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited quarterly standalone financial results are available on the websites of the Stock Exchanges' (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and the Company's website (www.jio.com).
- Exchange of India Ltd. and BSE Ltd.) and can be accessed on the Company's website (www.jio.com).

Disclosure Requirements) Regulations, 2015, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchanges (National Stock

2 For the other line items referred in Regulation 52 (4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and

3 The Audit Committee has reviewed, and the Board of Directors has approved the above results and its release at their respective meetings held on 27th October 2023. The Statutory Auditors of the Company have carried out a Limited Review of the aforesaid results

For Reliance Jio Infocomm Limited

Sanjay Mashruwala

Date: 27th October 2023



SBI Life Insurance Company Limited CIN: L99999MH2000PLC129113

Registered and Corporate Office: Natraj, M. V. Road & Western Express Highway Junction, Andheri (East), Mumbai - 400 069 (IRDAI Regd. No.: 111 dated 29th March, 2001) Tel.: +91 22 6191 0000, Fax: +91 22 6191 0338, E-mail- investorrelations@sbilife.co.in, Website- www.sbilife.co.in

**FINANCIAL RESULTS** 

		Three months	ended/ As at	Half year er	nded/ As at	Year ended/ As at	
SI. No.	Particulars	September 30, 2023	September 30, 2022	September 30, 1 2023		March 31, 2023	
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	
1	Premium Income (Gross) <sup>1</sup>	20,17,581	16,62,108	33,73,090	27,97,019	67,31,560	
2	Net Profit /(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	38,698	38,664	77,672	65,405	1,75,844	
3	Net Profit /(Loss) for the period before tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	38,698	38,664	77,672	65,405	1,75,844	
4	Net Profit /(Loss) for the period after tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	38,019	37,674	76,123	63,958	1,72,057	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit /(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] <sup>2</sup>	NA	NA	NA	NA	NA	
6	Equity Share Capital (Paid up)	1,00,109	1,00,071	1,00,109	1,00,071	1,00,089	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve and fair value change account.)	12,69,903	11,08,007	12,69,903	11,08,007	11,92,366	
8	Earnings Per Share (face value of ₹10/- each)						
	<ol> <li>Basic (not annualised for three/six months) (in ₹)</li> </ol>	3.80	3.77	7.60	6.39	17.19	
	2. Diluted (not annualised for three/six months) (in ₹)	3.79	3.76	7.60	6.39	17.18	

Place: Mumbai

Date: October 27, 2023

- Premium income is gross of reinsurance and net of Goods and Service Tax (GST).
- The Indian Accounting Standards (Ind AS) are currently not applicable to Insurance companies in India. 3) The above is an extract of the detailed format of Quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of
- the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly financial results are available on the website of the Stock Exchanges (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and the Company (www.sbilife.co.in).

For and on behalf of Board of Directors

Amit Jhingran Managing Director & CEO (DIN: 10255903)

AFRS/ver1/10/23/ADVT/ENG



Regd. Office: O.P. Jindal Marg, Hisar - 125 005 (Haryana), Phone No.: (01662) 222471-83, Email Id. for Investors: investorcare@jindalstainless.com, Website: www.jindalstainless.com

Notice is hereby given that the following share certificate(s) are reported to have been lost. The company will proceed to issue duplicate certificate(s) in respect of these shares. f no valid objection is received within 7 days from the date of publication of this notice. Equity Shares of Jindal Stainless Limited.

PUBLIC NOTICE - LOSS OF SHARE CERTIFICATES

Folio No. Name of Shareholder(s) | Certificate No. | Distinctive numbers | No. of shares 51733 Rajendra S Bhat 60622616-60622800 | 185 Vidya R Bhat for Jindal Stainless Limited

Date: October 26, 2023 Sd/- Navneet Raghuvanshi Place: Gurugram Company Secretary

## MEDICAL SERVICES DEPARTMENT LHI MUNICIPAL COUNCII CHARAK PALIKA HOSPITAL EMPLOYMENT NOTICE

Applications are invited through Rolling Advertisement for "Walk-In- Interview on 15.11.2023 at 09.00 A.M in the office of Director (Medical Services), Charak Palika Hospital, Moti Bagh-1, New Delhi-110021, and thereafter "walk-in interviews" to be conducted on first working day of every month till the all vacancy(s) is/are filled

up for recruitment to the post of Senior Residents (SR) under Medical Services Department, NDMC. Current vacancy of Senior Residents: 20

S.No.	Department	Vacancy	UR	SC	ST	OBC	PwD	EWS
1.	Obstetrics & Gynaecology	06	03	01	01	01	Nil	Nil
2.	Paediatrics	03	01	01	01	Nil	Nil	Nil
3.	Anaesthesia	05	01	01	01	01	01	Nil
4.	Medicine	01	01	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
5.	Surgery	02	01	Nil	Nil	01	Nil	Nil
6.	Orthopaedics	01	Nil	Nil	Nil	01	Nil	Nil
7	Radiology	01	Nil	Nil	Nil	01	Nil	Nil
8.	Ophthalmology	01	01	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
	Total No. of Posts	20	08	03	03	05	01	Nil

Year, extendable up to a maximum period of 03 years only subject to the satisfactory Note: All the details are available on the NDMC web portal i.e

financialexp.epap.in

Appointment & Tenure for the post of Senior Resident: Initially for a period of 01

www.ndmc.gov.in Director (Medical Services)



# SRF LIMITED

Registered Office: The Galleria, DLF Mayur Vihar, Unit No. 236 & 237, Second Floor, Mayur Place, Noida Link Road, Mayur Vihar Phase I Extn, Delhi - 110091 Tel. No. (Regd. Office): (+91-11) 49482870 | Fax: (+91-11) 49482900 | E-mail: info@srf.com | Website: www.srf.com | CIN - L18101DL1970PLC005197

STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2023

				STANDALONE		- 10	CONSOLIDATED (Rs. in Crores					
		QUARTER ENDED HALF YEAR ENDED		R ENDED	YEAR ENDED	QUARTER ENDED		HALF YEAR ENDED		YEAR ENDER		
SI. No.	Particulars	30-Sep-23	30-Sep-22	30-Sep-23	30-Sep-22	31-Mar-23	30-Sep-23	30-Sep-22	30-Sep-23	30-Sep-22	31-Mar-23	
IVO.		(1)	(1)	(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
1	Total Income from Operations	2586.98	2971.84	5360.70	6074.71	12073.84	3177.36	3727.78	6515.74	7622.50	14870.25	
2	Profit for the period before tax	415.77	572.11	906.84	1298.45	2655.86	414.81	618.08	900.58	1459.67	2823.99	
3	Net Profit for the period after tax	308.72	439.15	674.12	947.58	2023.36	300.78	480.99	660.07	1088.99	2162.34	
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	276.88	343.46	713.27	730.41	1833.77	257.68	328.44	627.16	762.21	1966.71	
5	Paid up Equity Share Capital	296.42	296.42	296.42	296.42	296.42	296.42	296.42	296.42	296.42	296.42	
6	Reserves (excluding Revaluation Resrve)	9566.96	7955.26	9566.96	7955.26	8956.11	10554.37	8927.39	10554.37	8927.39	10029.61	
7	Net Worth	9863.38	8251.68	9863.38	8251.68	9252.53	10850.79	9223.81	10850.79	9223.81	10326.03	
8	Security Premium Account	509.56	509.56	509.56	509.56	509.56	509.56	509.56	509.56	509.56	509.56	
9	Debt Equity Ratio	0.34	0.35	0.34	0.35	0.34	0.46	0.42	0.46	0.42	0.43	
10	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)											
	(a) Basic :	10.42	14.81	22.74	31.97	68.26	10.15	16.23	22.27	36.74	72.95	
	(b) Diluted :	10.42	14.81	22.74	31.97	68.26	10.15	16.23	22.27	36.74	72.95	
11	Capital Redemption Reserve	10.48	10.48	10.48	10.48	10.48	10.48	10.48	10.48	10.48	10.48	
12	Debt Service Coverage Ratio	3.33	1.64	3.16	2.47	3.09	2.55	1.68	2.59	2.63	2.98	
13	Interest Service Coverage Ratio	6.83	13.28	7.35	17.19	13.10	5.65	13.46	6.11	17.98	12.67	

NOTES:

Place: Gurugram

Date : October 27, 2023

The above is an extract of the detailed format of Quarterly and half year ended results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and Regulation 52(4) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the results are available on the website of the Stock Exchange(s) (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and the Company's website (www.srf.com).

We always find a better way

Chemicals Business | Packaging Films Business | Technical Textiles Business





For and on behalf of the Board

Chairman and Managing Director

**Ashish Bharat Ram** 

अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण

# अभियुक्त व्यक्ति की हाजरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82Cr.PC देखिये

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त अरविन्द कुमार @ काले पुत्र रणजीत सिंह, निवासी गांव क्यामपुर, तहसील एवं थाना एवं जिला बागपत, उत्तर प्रदेश ने केस प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 568/2020 धारा 33/38 दिल्ली एक्साइज एक्ट पुलिस थाना सिविल लाइंस, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अरविन्द कुमार @ काले मिल नहीं रहा हैं और मुझे समाधान प्रद रुप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अरविन्द कुमार @ काले फरार हो गया हैं (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा हैं) ।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 568/2020 धारा 33/38 दिल्ली एक्साइज एक्ट पुलिस थाना सिविल लाइंस, दिल्ली के अभियुक्त अरविन्द कुमार @ काले से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 19.12.2023 को या उससे पहले हाजिर हों

सुश्री अरजिंदर कौर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मध्य जिला, कमरा नंबर-247 तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

DP/12139/N/2023 (Court Matter)

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उदघोषणा (धारा 82 Cr.P.C. देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त नीलम, पत्नी राजेश, पताः मकान नं ए-669, जे जे कॉलोनी, ख्याला, दिल्ली, ने FIR no. 227/2018 dated 03.08.2018 U/s 33/38 IPC थाना ख्याला. दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त नीलम मिल नहीं रही है और मुझे समाधान प्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त नीलम फरार हो गयी हैं (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रही है)। इसलिए इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि FIR no. 227/2018 dated 03.08.2018 U/s 33/38 IPC थाना ख्याला, दिल्ली की उक्त अभियुक्त नीलम से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 22.12.2023 को या इससे पहले हाजिर हो।

> आदेशानुसार सुश्री शगुन, महानगर दण्डाधिकारी –04, कमरा नं. 268, (पश्चिम) तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

> > Half Year ended

30-Sep-2023

Unaudited

20,289.88

18,734.94

18,734.94

16,222.61

16,222.61

40,108.51

3,491.82

46.48

46.48

46.48

46.48

(Rs. in Lakhs except Earning per Share data)

CONSOLIDATED

Unaudited

8,050.36

7,467.56

7,467.56

6,204.85

6,204.85

17,851.92

3,878.42

(\*\*)

16.05

16.05

16.05

16.05

Quarter Ended

30-Sep-2023 30-Sep-2022

Unaudited

5

8,974.74

8,206.94

8,206.94

7,027.72

7,027.72

14,398.29

3,491.82

20.14

20.14

20.14

20.14

ारफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचन O HDB WWW

की है। आपकी चक के परिणामस्वरूप आपका ऋण गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकत किया गया है। इसके

बाद, कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम)

की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस जारी किया है, जो आपको सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1)

के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार और वैकल्पिक सेवा के माध्यम से यहां प्रकाशित की जा रही है। उधारकर्ताओं, सह—उधारकर्ताओं, ऋण खाता संख्या, ऋण राशि, धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस की तारीख.

अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा (धारा 82 Cr. P.C देखिए)

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त व्यक्ति सुरजीत सिंह पुत्र फौजा सिंह निवासी मकान नं. 1/2121, राम नगर, शाहदरा, दिल्ली ने प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 147/2018 घारा 420/468 मा.द.सं. थाना शाहदरा, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त सुरजीत सिंह मिल नहीं रहा है और समाधान प्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त सुरजीत सिंह फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)। इसलिए इसके द्वारा उदघोषणा करते हुए अभियुक्त स्रजीत सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष या (मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 15.12.2023 को या उसके पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार श्री उदभव कुमार जैन, मेट्रोपोलिटिन मैजिस्ट्रेट, कमरा नं 31, DP/12148/SHD/2023 कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली (Court Notice)

# "IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

नोटिस में दावा की गई राशि, एनपीए तिथि और प्रतिभूतियों का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:। जधारकर्ता और सह-जधारकर्ता का नामः बी के इलेक्टिकल्स - ई-122 फेज-2 मायाप वह सारा टुकड़ा और पार्सल जनता फ्लैट नंबर 75-बी, पॉकेट-2, पश्चिम पूरी, नई दिल्ली दिल्ली-110063- अश्वनी कुमार महाजन – मकान नंबर 75 बी पॉकेट –2 दूसरी पहली मंजिल मादीपुर पश्चिम पुरी सामने सिंह सभा गुरुद्वारा दिल्ली–110063 – अनीता प्रकाश – 75 बी डबल स्टोरी एफ / एफ पश्चिमपुरी दिल्ली–110063 – जितेंद्र कुमार महाजन (कानूनी उत्तराधिकारी के माध्यम से मृत) –अनीता महाजन (कानूनी उत्तराधिकारी) – मकान नंबर 75–बी जनता फ्लैट पॉकेट—2रा पश्चिम प्रथम तल दिल्ली—110063 — शयम महाजन (कानूनी उत्तराधिकारी) — मकान नंबर 75—बी जनता प्लैट पॉकेट-2रा पश्चिम प्रथम तल दिल्ली-110063 - सक्षम महाजन (कानुनी उत्तराधिकारी) - मकान नंबर 75-बी जनता फ्लैट पॉकेट—2रा पश्चिम पहली मंजिल दिल्ली—110063 — बबीता महाजन हाउस नंबर 75 बी पॉकेट — 02 पहली मंजिल मादीपुर पश्चिम पुरी ओपी सिंह सभा गुरुद्वारा दिल्ली—110063: ऋण खाता संख्या . 5432620 ऋण राशिः रु. 4000000/- ( रू चालीस लाख रुपये केवल ) .मांग सूचनाः 23/10/2023 दावा की गई राशिः रु. 23.10.2023 तक 6,953,373.76 (रुपये उनसठ लाख तिरपन हजार तीन सौ तिहत्तर और पैसे छिहत्तर मात्र) और आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि सहित वास्तविक वसुली तक भविष्य का संविदात्मक ब्याज एनपीए दिनांकः 05.07.2020 सुरक्षा का विवरणः वह सारा टुकड़ा और पार्सल जनता फ्लैट नंबर 75—बी, पॉकेट—2, पश्चिम पुन, नई दिल्ली - दिल्ली—110063 हैं। **उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता का नामः पीसीबी सॉल्यशंस —** आरजेड-100 रटीट नंबर-6 विष्ण गार्डन ख्याला पीपल वाली गली गुरुद्वारा के पास दिल्ली दिल्ली—110018 — और इसके अलावा संपत्ति / प्लॉट नंबर आरजेड–54 (पुराना) और आरजेड–100 ( नया), खसरा किला सें. नंबर 12/16 वेस्ट ब्लॉक, विष्णु गार्डन एक्सटेंशन, नई दिल्ली दिल्ली–110018 – क्सम मलिक –ए3 / 706 रंग रसायन अपार्टमेंट रोहिणी सेक्टर 13 उत्तर पश्चिम दिल्ली दिल्ली–110085 –ऋण खाता संः 8376861/14391752 ऋण राशिः ऋण खाता संख्या 8376861 द्वारा रु.6309562 / – (तीरसठ लाख नौ हजार पांच सौ बासठ रुपये मात्र) और ऋण खाता संख्या 14391752 द्वारा रु.360000 / - (तीन लाख साठ हजार रुपये मात्र) तक . मांग सूचना 23 / 10 / 2023 दावा की गई राशिः रु. 23.10.2023 तक 9635064.7/- (छियानवे लाख पैंतीस हजार चौसठ रुपये और केवल सत्तर पैसे) और आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि के साथ वास्तविक प्राप्ति तक भविष्य का संविदात्मक ब्याज एनपीए दिनांकः 04.07.2021 सुरक्षा का विवरणः संपत्ति की सारी टुकडा और पार्सल संपत्ति संख्या 54, क्षेत्रफल 134.1/2 वर्ग यार्ड, खसरा नंबर 12/16 से बाहर, जिसमें एक कमरा और चारदीवारी शामिल है,

के भीतर उपर्युक्त मांग की गई राशि को अतिरिक्त ब्याज के साथ भुगतान करें, ऐसा न करने पर अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। उल्लिखित प्रतिभृतियों को लागू कर (उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया जाता है।) उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार, उपरोक्त संदर्भित प्रतिभृतियों को हमारी सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा हस्तांतरित करने से रोका गया है और यह अधिनियम की धारा 13(13) का कोर्ड भी अनपालन उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय है। **किसी भी प्रश्न के लिए कृपया भूपेन्द्र** 08360772826 और विकासआनंद — 9711010384 से संपर्क करें: हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, स्थानः दिल्ली, दिनांकः 28.10.2023 एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के लिए,

जो ग्राम खियाला आबादी में स्थित है, जिसे अब वेस्ट ब्लॉक, विष्णु गार्डन एक्सटेंशन, नई दिल्ली के रूप में

नई दिल्ली दक्षिण दिल्ली-110019 में रीयल इस्टेट के कार्यों में प्रचालन कर रही है. के लिये पैनः ACCA6440P | CIN: U70101DL2000PTC105289 परिसम्पत्तियां अवस्थित ह उसके पास कोई उत्पाद नहीं है अनुसूची के साथ), क्रेडीटरों की सूची, प्रक्रिया के परवर्ती कार्यक्रमों के संबंधित तिथियों सहित विस्तत विवरण उपलब्ध है हेता की धारा 25(2)(h) के अं आवेदकों की पात्रता उपलब्ध है: करने की तिथि मुल्यांकन मैट्रिक्स तथा प्रस्ताव योजना के लिये अनुरो जारी करने की तिथि 7.12.2023 (चंकि. वर्तमान सीआईआरपी अवधि 26.11.2023 व समाप्त होने वाली है, अतः सही समय पर सीआईआरपी अवधि के वेस्तार की मांग की जाएगी। | ईओआई जमा करने के लिये प्रॉसेस ईमेल आः एरेन्स जय रियलिटी प्राईवेट लिमिटेड के प्रस्ताव कर्मी तिथि: 28.10.2023

स्थानः दिल्ली पंजी. सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00774/2018-2019/12373

**Particulars** 

टीमो प्रोडक्शन्स एचक्यू लिमिटेड (पूर्व में जीआई इंजीनियरिंग सॉल्युशंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) सीआईएनः L74110DL2006PLC413221 रिज. एवं कॉर्पोरेट कार्यालयः यूनिट 1308, अग्रवाल कॉर्पोरेट हाइट्स, नेताजी सुभाष पैलेस, नई दिल्ली-110034

फोन नंबरः 011-44789583, **वेबसाइटः** www.giesl; ई-मेल आईडीः cs@giesl.in पोस्टल बैलेट की सूचना एवं ई-वोटिंग सूचना

सक द्वारा नाटिस दिया जाता है कि कंपना अधिनयम, 2013 ("अधिनयम") का धारा 110 के अनुसार, कंपना (प्रबंधन आर् प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और 22 के साथ पठित, जैसा कि समय—समय पर संशोधित किया जाता है। अन्य लागू कानुनों के अनुसार, कंपनी ने 27 अक्टूबर, 2023 को केवल उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से 25 अक्टूबर, 2023 को पोस्टल बैलेट नोटिस भेजा और भेजने का काम पूरा कर लिया है, जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत हैं। उनके डिपॉजिटरी भागीदार या कंपनी के रजिस्टार और शेयर ट्रांसफर एजेंट मैसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से डाक मतपत्र के माध्यम से निम्नलिखित प्रस्तावों के लिए टीमो प्रोडक्शंस एचक्य लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की मंजूरी ली जा रही है:

क्र.सं. संकल्पों का वर्णन कंपनी के इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य के रुपये से उप—विभाजन को मंजूरी देना। प्रत्येक 10/— (केवल दस रूपये) में प्रत्येक से रु. 1/- (एक रुपया) कंपनी के अधिमान शेयरों के अंकित मल्य के उप-विमाजन को रुपये से मंजरी देना। प्रत्येक 10 /

रूपये) प्रत्येक से रु. 1/- (एक रुपया) कंपनी के इक्विटी शेयरों और वरीयता शेयरों के अंकित मूल्य के उप—विभाजन के परिणामस्वरूप कंपनी के एसोसिएशन के ज्ञापन के पूंजी खंड में परिवर्तन को मंजूरी देना

कंपनी द्वारा प्रतिभृतियां जारी करके धन जुटाने की मंजूरी देना।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने अपने सामान्य परिपत्र संख्या ०९ / २०२३ दिनांक २५ सितंबर, २०२३ के माध्यम से अपने सभी शेयरधारकों को ई–मेल द्वारा डाक मतपत्र नोटिस सहित नोटिस भेजने की समय सीमा 30 सितंबर, 2024 तक बढ़ा दी है। इसलिए, नोटिस या पोस्टल बैलेट फॉर्म की भौतिक प्रतियों का कोई प्रेषण नहीं होगा। सदस्यों के मतदान का अधिकार शुक्रवार, 20 अक्टूबर, 2023 को व्यावसायिक घंटों की समाप्ति पर उनके द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों पर गिना जाएगा, जो इस उद्देश्य के लिए निर्धारित कट-ऑफ तारीख है।

कंपनी ने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की सेवाएं ली हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे कि ई-वोटिंग शनिवार, 28 अक्टूबर, 2023 (सूबह 9. 00 बजे) को शुरू होगी और रविवार, 26 नवंबर, 2023 (शाम 5.00 बजे) को समाप्त होगी, उसके बाद ई—वोटिंग मॉड्यूल अक्षम कर दिया जाएगा। कंपनीं के निदेशक मंडल ("बोर्ड") ने मैसर्स कुमार जी एंड कंपनी, कंपनी सचिव को संचालन के लिए संवीक्षक

("स्क्रृटिनाइजर") के रूप में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई—वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से डाक मतपत्र के नियक्त किया है। डाक मतपत्र नोटिस कंपनी की वेबसाइट यानी www.giesl.in और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट www.evoting.ndls.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है जहां कंपनी के शेयर

यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड सूचीबद्ध हैं। पोस्टल बैलेट का परिणाम कार्यकारी निदेशक या उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा सोमवार, 27 नवंबर, 2023 को या उससे पहले स्टॉक एक्सचेंज पर घोषित किया जाएगा, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं और स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ प्रदर्शित किए जाते हैं। कंपनी की वेबसाइट यानी www.giesl.in और नेशनल सिक्योरिटीज

जिन सदस्यों ने अभी तक अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे सीधे कंपनी/आरटीए को एक ई-मेल भेजकर अपना ई-मेल पता पंजीकृत करें।

किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.ndls.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्य्) और शेयरधारकों के लिए ई—वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं या

022 –4886 7000 और 022 2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting.ndls.com पर अनुरोध भेजें। टीमो प्रोडक्शंस एचक्य लिमिटेड के लिए

(पूर्व में जीआई इंजीनियरिंग सॉल्युशंस लिमिटेड के नाम सें जाना जाता था) कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

एतदुद्वारा सूचना दी जाती है कि मै. आयशर मोटर्स लिमिटेड के निम्नलिखित इक्विटी शेयर प्रमाण पत्र हस्तांतरण विलेखों के बिना खो /गुम हो हैं। उसकी सुचना मैंने मै. आयशर मोटर्स लि. को दी गई है और मैं/हमने डुप्लीकेट

शेयर	प्रमाणपत्र जारी करने के	लिए आवेदन	किया है।		
क्र. सं.	शेयरधारक के नाम	फोलियो	प्रमाणपत्र सं.	विशिष्ट नं.	शेयरों की सं.
1.		0001952	11952	1193301-1193400	प्रदत्त 10/- रु. के 100 शेयर्स
ш	श्री अजय पटेल		48971	10030091-10030190	प्रदत्त 10/- रु. के 100 शेयर्स
				कुल	प्रदत्त 10/- रु. के 200 शेयर्स

डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट www.evoting.ndls.com पर।

उक्त शेयरों के संबंध में दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति इस तरह के दावे को दस्तावेज प्रमाण के साथ मै. आयशर मोटर्स लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय, तीसरी मंजिल – स्लेक्ट सिटीवॉक, ए – 3 जिला केंद्र साकेत, नई दिल्ली – भारत / या इसके आरटीए लिंक इंटाइम प्रा लि, सी 101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई -400083 को इस तिथि से 15 दिनों के भीतर पर दर्ज कर सकता है अन्यथा मै. आयशर मोटर्स लिमिटेड डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आगे बढ़ेगा। स्थानः अहमदाबाद, गुजरात शेयरधारक का नाम तिथिः 28.10.2023 श्री अजय पटेल



स्थानः दिल्ली

दिनांकः 27 अक्टूबर, 2023

# जिंदल सॉ लिमिटेड

सीआईएन नंबर : L27104UP1984PLC023979 पंजीकृत कार्यालय : ए—1, यूपीएसआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र, नंदगांव रोड, कोसी कलां, जिला मथुरा – 281403 भारत निगमित कार्यालय : जिंदल सेंटर, 12, भीकाजी कामा प्लेस,

नई दिल्ली — 110 066 वेबसाइट : www.jindalsaw.com

सुचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कि कंपनी की असाधारण आम बैठक शुक्रवार, 24 नवंबर, 2023 दोपहर 02.30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय ए-1, यूपीएसआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र, नंदगांव रोड, कोसी कलां, जिला मथुरा–281403, (उत्तर प्रदेश) में आयोजित की जाएगी, जो कि उक्त असाधारण आम बैठक (ईजीएम) के आयोजन की सूचना में निर्धारितानुसार व्यवसाय संचालित करने के लिये संपन्न की जायेगी। एमसीए और सेबी द्वारा समय–समय पर जारी किए गए विभिन्न संशोधित परिपत्रों के अनुसार, ईजीएम की सूचना उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जा रही है जिनके ईमेल पते कंपनी , आरटीए / डिपॉजिटरीज के साथ पंजीकृत हैं और अन्य उन सभी सदस्यों को भौतिक प्रतियां भेजी जा रही हैं जिनके ईमेल पते कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरीज के साथ पंजीकृत नहीं है। सदस्यगण ध्यान दें कि ईजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.jindalsaw.com, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। सचना 20 अक्टबर, 2023 को शेयर रखने वाले सदस्यों।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के साथ पढ़ा जाता है, के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को कंपनी के ईजीएम में संचालित किये जानेवाले किए जाने वाले प्रस्ताव पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने के लिए दूरस्थ ई–वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है।

सदस्य कृपया निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें : क. रिमोट ई—वोटिंग मंगलवार, 21 नवंबर, 2023 को सुबह 9.00 बजे शुरू होगी और गुरुवार, 23 नवंबर,

ख. रिमोट ई—वोटिंग गुरुवार, 23 नवंबर, 2023 को शाम 5.00 बजे के बाद उपलब्ध नहीं होगी। ग. रिमोट ई-वोटिंग और ईजीएम में मतदान के माध्यम से मतदान के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित

करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर, 2023 है।

2023 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी।

ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है।

www.readwhere.com

घ. कोई भी व्यक्ति जो ईजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि अर्थात् 17 नवंबर, 2023 के अनुसार शेयर रखता है, वह मैसर्स आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री (प्राइवेट) लिमिटेड, आर एंड टी कंपनी का एजेंट, बी-25/1, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज ।।, नई दिल्ली – 110020, फोन– 011– 36020465 ∕ 66, ईमेल– sectshares@rcmcdelhi.com

से संपर्क करके अपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। ड. जो सदस्यगण रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालते हैं, वे भी ईजीएम में शामिल हो

सकते हैं, लेकिन उन्हें ईजीएम में वोट डालने की अनुमित नहीं दी जाएगी। व. पोल के माध्यम से मतदान की सुविधा ईजीएम में उन सदस्यों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने रिमोट

छ. सदस्यगण ईजीएम सूचना में दिए गए ई—वोटिंग निर्देशों को पढ़ सकते हैं या https://evoting.nsdl.com पर जा सकते हैं और किसी भी प्रश्न की स्थिति में, आप https://evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और सदस्यों के लिये ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं। कृते जिंदल सॉ लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 27 अक्टूबर, 2023 एफसीएस : 3056

# एस आर एफ् लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः द गैलेरिया, डीएलएफ मयूर विहार, यूनिट संख्या 236 व 237, द्वितीय तल, मयूर प्लेस, नोएडा लिंक रोड, मयूर विहार फेज 1 एक्सटेंशन, दिल्ली-110091 फोन (पंजीकृत कार्यालय): (+91-11) 49482870 | फैक्सः (+91-11) 49482900 | ई-मेलः info@srf.com | वेबसाइटः www.srf.com | सीआईएनः L18101DL1970PLC005197

30 सितम्बर 2023 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्ध वर्ष हेतु एकल एवं संचित वित्तीय परिणाम

संचित समाप्त तिमाही समाप्त अर्द्ध वर्ष समाप्त तिमाही समाप्त अर्द्ध वर्ष समाप्त वर्ष समाप्त वर्ष विवरण 30 सितम्बर 23 30 सितम्बर 22 30 सितम्बर 23 30 सितम्बर 23 31 मार्च 23 30 सितम्बर 23 30 सितम्बर 22 30 सितम्बर 23 30 सितम्बर 22 31 मार्च 23 सं (3) (5) (1) (4) (5) (2) (4) (2) (3) अनअंकेक्षित अनअंकेक्षित अनअंकेक्षित अनअंकेक्षित अनअंकेक्षित अनअंकेक्षित अनअंकेक्षित अनअं के क्षित अंकेक्षित अंकेक्षित 1 संचालनों से कुल आय 2971.84 6515.74 2586.98 5360.70 6074.71 12073.84 3177.36 3727.78 7622.50 14870.25 2 अवधि हेतु कर पूर्व लाभ 2823.99 415.77 572.11 906.84 1298.45 2655.86 414.81 618.08 900.58 1459.67 3 अवधि हेत् कर पश्चात शुद्ध लाभ 308.72 439.15 674.12 947.58 2023.36 300.78 480.99 660.07 1088.99 2162.34 अविध हेतु कुल व्यापक आय [(अविध हेतु लाभ / (हानि) (कर 276.88 343.46 713.27 730.41 1833.77 257.68 328.44 627.16 762.21 1966.71 पश्चात) एवं कुल व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल कर कें 5. प्रदत्त समता अंश पूँजी 296.42 296.42 296.42 296.42 296.42 296.42 296.42 296.42 296.42 296.42 संचित (पुनर्मूल्यांकन संचित के अतिरिक्त) 9566.96 7955.26 9566.96 7955.26 8956.11 10554.37 8927.39 10554.37 8927.39 10029.61 7. शुद्ध संपत्ति 9863.38 9863.38 8251.68 9252.53 10850.79 9223.81 10850.79 9223.81 10326.03 8251.68 प्रतिभृति प्रीमियम खाता 509.56 509.56 509.56 509.56 509.56 509.56 509.56 509.56 509.56 509.56 9. ऋण पुँजी अनुपात 0.35 0.34 0.35 0.46 0.42 0.42 0.43 0.340.34 0.46 10. प्रति अंश आय (रु. 10 प्रत्येक के) (जारी एवं बंद प्रचालनों हेत्) (रुपये में) 22.27 (अ) मूलभूत 10.42 14.81 22.74 31.97 68.26 10.15 16.23 36.74 72.95 14.81 22.74 31.97 68.26 22.27 36.74 72.95 (ब) तरल 10.42 10.15 16.23 11. ऋण पत्र शोधन रिजर्व 10.48 10.48 10.48 10.48 10.48 10.48 10.48 10.48 10.48 10.48 12. ऋण सेवा कवरेज अनुपात 3.33 1.64 3.16 2.47 3.09 2.55 1.68 2.59 2.63 2.98 13. ब्याज सेवा कवरेज अनुपात 6.83 13.28 7.35 17.19 13.10 5.65 6.11 17.98 12.67 13.46

टिप्पणीः

सुनील के जैन

कंपनी सचिव

उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 एवं विनियम 52(4) के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास दाखिल किए गए तिमाही एवं अर्द्ध वार्षिक परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। तिमाही एवं अर्द्ध वार्षिक परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज(ऑ) की वेबसाइट (www.nseindia.com एवं www.bseindia.com) पर तथा कम्पनी की वेबसाइट (www.srf.com) पर उपलब्ध है।

स्थान : गुरुग्राम दिनांक: 27 अक्टूबर, 2023

> हम हमेशा एक बेहतर तरीका ढ़ेंढते हैं रसायन व्यवसाय | पैकेजिंग फिल्म व्यवसाय | टेक्निकल टेक्सटाइल व्यवसाय

DP/12159/WD/2023 VLS FINANCE LIMITED

STANDALONE

Unaudited

7,517.60

7.002.79

7,002.79

5.840.48

5,840.48

12,367.59

3,878.42

(\*\*

15.11

15.11

15.11

15.11

Half Year ended

30-Sep-2023

Unaudited

19,629.03

18,225,46

18,225.46

15,818.16

15,818.16

33,849.37

3,491.82

(\*\*)

45.32

45.32

(\*\*

45.32

45.32

Quarter Ended

30-Sep-2023 30-Sep-2022

Unaudited

2

8,415.58

7,730.46

7,730.46

6,651.59

6,651.59

14,960.91

3,491.82

(\*\*)

19.06

19.06

(\*\*)

19.06

19.06

CIN: L65910DL1986PLC023129 Email: vls@vlsfinance.com Website: www.vlsfinance.com

Regd. Office: Ground Floor, 90, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi- 110020 Ph: 91(11) 46656666 Fax: 91(11) 46656699 STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30-SEP-2023

Revenue from continuing operations Net Profit/(Loss) for the period before tax ( Before Exceptional Items and or Extraordinary items) from Net Profit/(Loss) for the period before tax (After Exceptional Items and or Extraordinary items) from continuing operations Net Profit/(Loss) for the period after tax (After Exceptional Items and or Extraordinary items) from

Net Profit/(Loss) for the period after tax (After Exceptional Items and or Extraordinary items) from discontinuing operations Net Profit/(Loss) for the period after tax (After Exceptional Items and or Extraordinary items) from continuing and discontinuing operations Total Comprehensive Income for the period(Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other

-Diluted

Note:

continuing operations

Comprehensive Income for the period) Paid Up Equity Share Capital (Face Value Rs.10/- Per Share) Earning Per Share (before Extraordinary items) (of Rs.10/-each) -Basic

(not annualised) (\*\*) (not annualised) (\*\*)

Earning Per Share ( after Extraordinary items) (of Rs.10/-each) (not annualised) (\*\*) (not annualised) (\*\*)

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/periodical Financial Results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full format of Quarterly/periodical financial Results are available on the website of the Company (www.vlsfinance.com) and on the website of the stock exchanges viz. BSE Ltd (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India

Ltd.(www.nseindia.com) and the Calcutta Stock Exchange (www.cse-india.com). The specified items of the standard financial results of the Company for the quarter and the half year ended 30 September 2023 are given above. 2. The above standalone and consolidated unaudited financial results for the guarter and the half year ended 30 September 2023 were approved and taken on record in the Board Meeting held on 26.10.2023 after being reviewed and

recommended by the Audit Committee on the same date and have been subjected to limited review by the statutory auditors of the Company. 3. The Board of Directors of the Company in its meeting held on 05-Jan-2023 has approved buy-back of its own shares by the Company from open market through Stock Exchange route in terms of proviso to clause (b) of sub section 2 of section 68 of the Companies Act, 2013 and other applicable regulations. The buyback so approved has opened from 16/01/2023 and closed on 29/05/2023. During this period 38,66,025 equity shares of ₹ 10/- each have been bought back by the company at an average rate of ₹ 179.22 per share. A total sum of ₹ 6,928.59 lakhs (excluding transaction costs) was utilised for the said buyback. Post buyback the paid up share capital of the Company is ₹ 3491.82 Lakhs

(including ₹ 12.22 Lakhs being the amount forfeited on 4,67,500 equity shares) comprising 3,47,95,992 equity shares of ₹ 10/- each. Requisite compliances under applicable regulations have been made in respect of aforesaid buyback including for extinguishment of said shares so bought back. Accordingly, EPS has been calculated on weighted average number of shares as on 30 Sept 2023 in accordance with IND-AS 33. Previous period figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to conform to current period classification and rounding off errors have been ignored. The amounts reflected as " 0 " or " - " in the financial information are

values with less than rupees five hundred.

Place : New Delhi

Date : 26th October, 2023

By order of the Board for VLS Finance Limited S.K. AGARWAL **Managing Director** DIN:00106763

(रु. करोड में)

कृते एवं मंडल की ओर से

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

आशीष भरत राम